

**HT MEDIA LIMITED**

Regd. Office : Hindustan Times House  
18-20, Kasturba Gandhi Marg  
New Delhi - 110001  
Tel.: 66561234 Fax : 66561270  
www.hindustantimes.com  
E-mail : corporatedept@hindustantimes.com  
CIN : L22121DL2002PLC117874

**Ref:** HTML/CS/02/2021

July 17, 2021

**BSE Limited**  
P.J. Towers  
Dalal Street  
**MUMBAI – 400 001**

**The National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, C/1, G Block  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
**Mumbai – 400 051**

**Scrip Code: 532662**

**Trading Symbol: HTMEDIA**

Dear Sirs,

**Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper advertisement in relation to transfer of equity shares to IEPF Authority**

Please find enclosed herewith copy of relevant page of “**Mint**” (English - all editions) and “**Hindustan**” (Hindi - Patna, Delhi NCR, Lucknow, Ranchi and Dehradun editions) newspapers (published today i.e. 17<sup>th</sup> July, 2021) in compliance of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Abovementioned notices are being placed on the Company’s website viz. www.htmedia.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **HT Media Limited**



**(Dinesh Mittal)**  
**Group General Counsel & Company Secretary**

**Encl: As above**



# Will ensure Ruchi Soya FPO pricing is balanced for all investors: Baba Ramdev

Swaraaj Singh Dhanjal  
swaraajd@livemint.com  
MUMBAI



Baba Ramdev, founder of Patanjali Ayurved.

Patanjali Ayurved Ltd, which owns 98.9% of Ruchi Soya Industries Ltd, is planning the upcoming follow-on public offering (FPO) of the edible oil maker in such a way that the pricing of the shares is well-balanced from the perspective of both existing and incoming shareholders, founder Baba Ramdev said.

Ramdev also hinted at a possible public offering of Patanjali Ayurved, but said the transformation of Ruchi Soya is his priority.

Ruchi Soya has filed a draft prospectus with the Securities and Exchange Board of India (Sebi) for a ₹4,300 crore FPO to raise fresh money. While Ruchi Soya is a listed company with a discovered price in the market, an FPO allows a company to price its shares freely and thus, it may be priced at a sharp difference from the market price.

Patanjali had acquired the erstwhile bankrupt firm known for the Nutrela brand of products in 2019 for around ₹4,350 crore through an insolvency and bankruptcy code (IBC) process.

Ruchi Soya's shares listed on 27 January 2020 at ₹16.10 and soared to a one-year high of ₹1,535 on 29 June, largely on account of its extremely small public float. On Friday, its shares closed at ₹1,125, up 1.25% on BSE.

"We will ensure that the price is well-balanced from the perspectives of both our exist-

ing shareholders and the new investors that will be coming into the FPO. We have done all the preparations, we have submitted to Sebi all the materials they have asked for, and we are hoping for the approval to come soon," Ramdev said in an interview. "We already have a lot of interest from investors," he added.

The FPO will help the firm increase the public float, taking a step forward to meeting Sebi's minimum public shareholding (MPS) norm of 25%.

Currently, the company needs to increase public shareholding by only 9% to meet the MPS requirement and the remaining 15% is required to be completed by December 2022. However, after utilizing the 20% uptick in offer size as permissible under regulations, the FPO is expected to ensure compliance of 15-20% public shareholding requirement, the company said.

Proceeds from the FPO will be used mainly to reduce Ruchi

Soya's debt, with around 60% of the capital planned to be used for that purpose, with another 20% earmarked for working capital use and the rest 20% for other general corporate use.

"We want to make the company debt-free. The target is to become debt-free in the next two to three years," he said.

"While we have already turned around the company and it is now profitable, the bigger thing is that we have transformed the company from a commodity-focused company to an FMCG, health, and food company. We have brought in governance, professional management, transparency and accountability," said Ramdev.

"Going ahead, only 20% of the company's revenues will come from the commodity business, which is its old edible oil business and 80% will be from food, FMCG and wellness," Ramdev added that nutraceuticals will be the next big focus area for Ruchi Soya.

# OYO raises \$660 mn debt from investors

OYO is the first Indian startup to raise capital via the term B loan route

Tarush Bhalla  
tarush.b@livemint.com  
BENGALURU

Hospitality unicorn OYO Hotels and Homes Ltd on Friday said that it raised debt funding worth \$660 million from global institutional investors, including Fidelity Investments.

According to the company, the proposed issuance was subscribed 1.7 times as it received commitments of close to \$1 billion from leading institutional investors. Based on the response, the debt deal was upsized and increased by 10% to \$660 million, the company said in a statement.


OYO will use these funds to retire its past debts, strengthen the balance sheet and invest in product technology.

JP Morgan, Deutsche Bank, and Mizuho Securities served as the lead managers for this financing.

The outbreak of the covid-19 virus had severely impacted the hospitality industry worldwide. OYO was also on the receiving end of the impact and saw close to 60% of its business wiped away in a matter of months. It also laid off close to 300 employees, towards the end of last year.

However, before the second wave of the pandemic in the country, OYO's founder and chief executive Ritesh Agarwal said that its gross margin was back to pre-covid levels.

OYO is the first Indian startup to raise capital through the term B loan (TLB)



OYO will use these funds to retire its past debts, strengthen the balance sheet and invest in product technology.

route. TLB is essentially a term loan offered with the intention of maximizing long-term total returns.

"We are delighted by the response to OYO's maiden TLB capital raise that was oversubscribed by leading global institutional investors. We are thankful for the trust that they have placed in OYO's mission of creating value for owners and operators. OYO is well-capitalized and on the path of achieving profitability," said Abhishek Gupta, group chief financial officer, OYO.

Earlier this year, the company said that its focus on technology-led processes helped it become profitable in its core market of India.

"It's heartening for me to see the strong

interest from the investor community in the company, leading OYO to become the first Indian startup to be independently assessed by the world's leading credit rating agencies—Moody's and Fitch. Today, OYO has over 100,000 partners globally who are running successful businesses by utilizing OYO's proprietary technology, products, and revenue management capabilities," said W. Steve Albrecht, board member, OYO Hotels and Homes, and chairman of its audit committee.

The pandemic forced OYO to pull the plug on expansion in Latin America after its biggest investor SoftBank exited the joint venture in the region.

Now the company is taking its technology platforms, including its wallet service, OYO Secure, chat service OYO Yo!, and its grievance management software for customers and property owners, OYO Assist, to international markets in a bid to improve efficiencies and margins for its global operations.

This year, it restructured its business under three units - OYO INSEA (India and South-East Asia), which includes India, Indonesia, Malaysia and the Philippines; OYO Europe, and OYO International.

Currently, its INSEA arm contributes to nearly 50% of its revenues and, along with Europe, accounts for 80% of gross margins, Agarwal had said in a 21 March interview. In March, OYO was adding around 500 new property owners monthly on its platform.

# SBI, others recover ₹792 cr more from Mallya

Gireesh Chandra Prasad  
gireesh.p@livemint.com  
NEW DELHI

A group of lenders led by State Bank of India (SBI) has recovered ₹792 crore more in the Kingfisher Airlines case by selling shares handed over by the Enforcement Directorate (ED), the financial investigation agency said in a statement.

The ED had said in June that around ₹800 crore was expected to be realized by this consortium in the case from the sale of shares in United Breweries Ltd attached by the agency. The lenders had earlier recovered ₹7,181.5 crore from liqui-

dating assets and expect to make a total of ₹9,041.5 crore by selling assets attached by the ED under anti-money laundering provisions.

The move comes at a time the Narendra Modi administration is making all efforts to get Vijay Mallya, alleged to be a fugitive from justice, extradited from the UK.

India's Fugitive Economic Offenders Act provides for attachment of property of a fugitive economic offender and disentanglement of the offender from defending

any civil claim. Mallya's Kingfisher Airlines, which launched operations in 2005, could not survive the competition in the aviation industry, leading to its collapse in 2012.

The ED said assets worth ₹1,060 crore have been allowed to the banks by a Fugitive Economic Offence Court in the Punjab National Bank-Nirav Modi

case and that the investigating agency has confiscated ₹329.67 crore under the Fugitive Economic Offenders Act. The ED said it has attached or seized

assets worth ₹18,217.27 crore under the provisions of the anti-money laundering law and that banks and the government exchequer have realized 58% of the amount allegedly involved in the two cases.

News agency PTI said Mallya, who fled to the UK, is being probed by the ED and the Central Bureau of Investigation. The 65-year-old liquor baron has lost his case against extradition to India and as he has been denied permission to file an appeal in the UK Supreme Court, his extradition to India has become final, the ED had said. *Mint* could not immediately reach Mallya, Nirav Modi or their lawyers for comments.

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

Office of The Executive Engg. (CS/PIU)  
First Floor, Udyog Sadan, 419 Patparganj Industrial Area, Delhi-110092

**NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST**

Notice for EXPRESSION OF INTEREST FOR Registration / Empanelment of Regd. NGOs for collection of old/unused cloths for the purposes of making carry bags for distribution to shopkeepers/ vendors to eliminate single use of plastic carry bags as well as coordinating with the EDMC appointed concessionaire for proper disposal of unusable clothes/woolen/hosiery. Last date for submission of EOI is 25.08.2021. EOI and further details can be seen and downloaded from [www.mcdonline.nic.in/EDMC](http://www.mcdonline.nic.in/EDMC).

RO NO - 18/DPI/EAST/2021-22 Executive Engineer (PIU)  
EDMC's Citizens Helpline No. 155303

**GE POWER INDIA LIMITED**  
CIN: L74140MH1992PLC068379  
Registered Office: Unit No 211-212, 2nd Floor, The Capital G Block, Plot No. C-70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051  
Tel. No.: T +91 22 45407200; F +91 22 45407203  
Website: [www.ge.com/in/ge-power-india-limited](http://www.ge.com/in/ge-power-india-limited)

**NOTICE TO MEMBERS**  
**Annual General Meeting, Remote E-Voting information, Record date and Book Closure Dates**

- Notice is hereby given to the members of the Company that due to continuing COVID-19 pandemic, the 29th Annual General Meeting (AGM) of GE Power India Limited (the Company) will be held on Tuesday, 10 August 2021 at 04:00 pm through video conferencing (VC) or through other audio visual means ('OAVM') to transact the business set out in the 29th AGM Notice dated 22 June 2021 ('Notice of the AGM'), in compliance with circular no. 20/2020 dated 5 May 2020 and in its continuation the General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other laws/regulations/circulars.
- Notice is also hereby given to the Members of the Company pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 04 August 2021 to Tuesday, 10 August 2021 (both days inclusive), for the purpose of AGM.
- In compliance with the Circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, has been sent to all the Members of the Company on 16 July 2021 whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company ([www.ge.com/in/ge-power-india-limited](http://www.ge.com/in/ge-power-india-limited)), on the website of the Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)). Members, who do not receive the aforesaid documents, may download it from the Company's website or may obtain the same by registering / updating their email addresses in the manner as stated in the Notice for information regarding 29th Annual General Meeting published by the Company in *Mint* (All India Edition), The Free Press Journal (Mumbai Edition) and Navshakti (Marathi edition) newspapers on 13 July 2021. Copy of the aforesaid Notice/Newspaper is also available on the aforesaid Stock Exchanges' and Company's website.
- Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means ('Remote E-Voting') to transact the business as set out in the Notice of the AGM through the Remote E-Voting facility provided by KFinTech.
- The Remote E-Voting period commences on Saturday, 07 August 2021 at 9:00 a.m. IST and ends on Monday, 09 August 2021 at 5:00 p.m. IST. The E-Voting module shall be disabled after the time prescribed in this clause.
- A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Tuesday, 03 August 2021 shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting. Further the cut-off date for reckoning the shareholders for purpose of Dividend shall also be Tuesday, 03 August 2021.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. 03 August 2021 may obtain the User ID and password by sending a request to [evoting@kfinotech.com](mailto:evoting@kfinotech.com). The detailed procedure for obtaining User ID and password has been provided in the Notice of the AGM. If the member is already registered with KFinTech for E-voting then he can use his existing User ID and password for casting the vote through Remote E-voting.
- The members who have not cast their vote by Remote E-voting shall be able to vote at the AGM through electronic voting system by KFinTech.
- The members who have cast their vote by Remote E-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of <https://evoting.kfinotech.com> (KFinTech Website) or contact (040) 6716 2222, at [evoting@kfinotech.com](mailto:evoting@kfinotech.com) or call KFinTech's toll free No. 1800-3094-001 for any further clarifications.

By order of the Board  
For GE Power India Limited

Kamna Tiwari  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Noida  
Date : 16 July 2021

**SIIT**  
HT Media Limited  
CIN: L22121DL2002PLC117874  
Registered Office: Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg New Delhi - 110 001  
Tel: +91 11 66561234; Website: [www.htmedia.in](http://www.htmedia.in); E-mail: [investor@hindustantimes.com](mailto:investor@hindustantimes.com)

**NOTICE**  
(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

**Sub: Transfer of Dividend & Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

In terms of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), if dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven years or more, then the same shall be liable to be transferred by the Company to the IEPF account. Further, in terms of Section 124(6) of the Act and IEPF Rules, the Company is also required to transfer the shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven (7) consecutive years or more, to the IEPF Account.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders, on their latest available address, whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the said Rules, for taking appropriate action(s). The list of such shareholders, whose shares are liable for transfer to the IEPF, is placed on the Company's website viz. [www.htmedia.in](http://www.htmedia.in) under 'Investors' section.

The concerned shareholders holding shares in physical form, and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company will be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for dematerialization, followed by transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules. Upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will automatically stand cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in demat form, the Company will inform the respective Depository by way of corporate action for transfer of the shares to IEPF Authority. The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website viz. [www.htmedia.in](http://www.htmedia.in) will be considered as, and shall be deemed to be, adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

The concerned shareholders are requested/advised to claim the unpaid/unclaimed dividend amount(s) on or before October 19, 2021, failing which the shares, on which the dividend remains unpaid/unclaimed for last seven (7) consecutive financial years, shall be transferred to IEPF Authority.

Kindly note that unpaid/unclaimed dividend for financial years upto 2012-2013 and shares in respect thereof, have already been transferred to IEPF along with dividend paid thereon subsequently, and the same can be claimed back from IEPF Authority, following the procedure laid down under the said Rules.

For any queries in respect of the above, shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent at KFin Technologies Private Limited, Unit: HT Media Limited, Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 (Telangana); Toll Free No.: 1800-309-4001; Email: [einward.rs@kfinotech.com](mailto:einward.rs@kfinotech.com); Website: [www.kfinotech.com](http://www.kfinotech.com).

For HT Media Limited  
(Dinesh Mittal)  
Group General Counsel & Company Secretary

Date: July 16, 2021  
Place: New Delhi

**NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
(Remunerative Project Cell)

16<sup>th</sup> Floor, Civic Centre, Mintto Road, New Delhi Tel. No. 2322-6608  
No. DC/RP Cell/North DMCC/2021/D-284 Dated: 14.07.2021

**PUBLIC NOTICE**

Notice inviting tender (NIT) No. DC/ RP Cell/NDMC/2021/D-282 dated 14.07.2021 for e-auction the plot measuring 3950 Sqm. on freehold basis for Development of Multilevel Car Parking Complex at Sant nagar, Rani Bagh

The Scheduled of e-auction with complete details and terms & conditions are available on E-auction website of North Delhi Municipal Corporation, [www.auctionwizard.in/NORTHMCD](http://www.auctionwizard.in/NORTHMCD) and [www.mcdonline.gov.in](http://www.mcdonline.gov.in) and [www.mcdonline.gov.in/tr/ndmc](http://www.mcdonline.gov.in/tr/ndmc) North DMCC Portal. Corrigendum, if any shall be available on above websites. The bid document will be live on the E-Auction portal of North DMCC i.e. [www.auctionwizard.in/NORTHDMC](http://www.auctionwizard.in/NORTHDMC) w.e.f. 19.07.2021 to 16.08.2021. The date of submission of EMD along with other requisite documents/papers is up to 16.08.2021 by 3.00 PM. E-Auction will be held on 01.09.2021 from 11.00 AM to 5.00 PM.

Administrative Officer,  
R.P. Cell

RO No. 22/DPI/North/2021-22

Growth is not just about chasing success. It's also about learning from failures.

Growth is...On.

Follow us  
[www.linkedin.com/company/mint](https://www.linkedin.com/company/mint) [www.facebook.com/mint](https://www.facebook.com/mint) [www.instagram.com/mint](https://www.instagram.com/mint) [www.youtube.com/mint](https://www.youtube.com/mint) [www.tiktok.com/mint](https://www.tiktok.com/mint)

Think Ahead.  
Think Growth.

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**O/O THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX**  
**L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI**

Tender Reference No (1)/EX/IMFL/E-TENDER/2021-22 Date: 16.07.2021

**CORRIGENDUM 2.0**

**Grant of 32 Zonal licenses of Retail vends of liquor for sale of Indian and Foreign Liquor (Except Country liquor) in NCT of Delhi for the year 2021-22**

In the NIT, Clauses 1.6, 4.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6.2, 6.6.3, 9.2.1(i) and Checklist (Annexure C) S. No. 2 & 3 (In column-Documents required to be uploaded) of the tender document, the mode of deposit of tender participation fee of Rs. 10 lakhs per zone per bid and EMD of Rs. 30 crores/Rs. 60 crores (depending upon the number of zones applied) shall only be through banker's cheque/demand draft issued by a scheduled bank in favour of Excise Commissioner, GNCTD, payable at Delhi.

No other mode of payment of participation fee/EMD shall be acceptable. Corrigendum has been uploaded on the e-procurement website <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

Sd/-  
Arava Gopi Krishna  
(Excise Commissioner)

DIP/Shabadarth/0164/21-22

**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण**  
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-ओमेगा-1 (बी-2), ग्रेटर नोएडा  
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: [www.yamunaexpresswayauthority.com](http://www.yamunaexpresswayauthority.com)

पत्रांक : वाई.ई.ए. / मूलेख (तह) 547 / 2021 दिनांक : 16 / 07 / 2021

**सार्वजनिक सूचना**

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है-

क्रम सं०	खाता संख्या	खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	खातेदार का नाम व पता	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा (हे० में)	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे० में)
1.	76 92	486 / 3म 486 / 4म	0.4790 1.2650	नबरतन व सुबोध कुमार व सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण जगदीशचन्द्र नि० सादोपुर तह० दादरी	0.1320 1.2650	0.1320 1.2650
2.	137 221 137	502म 502स 507	0.0510 0.0250 1.7940	मनोज कुमार पुत्र बलवन्त सिंह नि० ग्राम मकसूदपुर पर० व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर हाल नि० मकान न०-756 गली न०-8 ए-ब्लाक कौशिक एन्कलेव बुराड़ी दिल्ली	0.0057 0.0014 0.1993	0.0057 0.0014 0.1993
3.	137 221 137	502म 502स 507	0.0510 0.0250 1.7940	सुबोध कुमार पुत्र बलवन्त सिंह नि० ग्राम मकसूदपुर पर० व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	0.0056 0.0014 0.1993	0.0056 0.0014 0.1993
4.	137 221 137	502म 502स 507	0.0510 0.0250 1.7940	विनोद कुमार पुत्र बलवन्त सिंह नि० ग्राम मकसूदपुर पर० व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	0.0057 0.0013 0.1994	0.0057 0.0013 0.1994
5.	137 221 137	502म 502स 507	0.0510 0.0250 1.7940	रवि कुमार पुत्र अतर सिंह नि० ग्राम मकसूदपुर पर० व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	0.0085 0.0021 0.2990	0.0085 0.0021 0.2990
6.	137 221 137	502म 502स 507	0.0510 0.0250 1.7940	उदयवीर पुत्र अतर सिंह नि० ग्राम मकसूदपुर पर० व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	0.0085 0.0021 0.2990	0.0085 0.0021 0.2990
7.	137 221 137	502म 502स 507	0.0510 0.0250 1.7940	शौलेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र सूरजमान नि० ग्राम मकसूदपुर पर० व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर हाल नि० बी-151 मेन श्याम पार्क नियर एल०आर० कालेज साहिबाबाद पर्सो० जाजियाबाद	0.0085 0.0021 0.2990	0.0085 0.0021 0.2990
					2.9449	2.9449

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अंदर विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

**विशेष कार्याधिकारी**

